



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 153]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 4, 1979/चैत्र 14, 1901

No. 153]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 4, 1979/CHAITRA 14, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आवृत्ति

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1979

का. आ. 196 (अ).—केंद्रीय सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) ने, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 5) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्यादेश कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जारी किए गए, भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 8 दिसम्बर, 1978 के पृष्ठ 1510-11 पर प्रकाशित, अपने आदेश सं. का. आ. 706 (अ), तारीख 8 दिसम्बर, 1978 द्वारा श्री सतपुड़ा तापी परिसर सहकारी शकर कारखाना लिमिटेड, पुरुषोत्तम नगर, जिला धुलिया, महाराष्ट्र राज्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त चीनी उपक्रम कहा गया है) का प्रबन्ध 13 दिसम्बर, 1978 से केंद्रीय सरकार में निहित कर दिया था,

और उक्त अध्यादेश का स्थान अब चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) (जिसे इसमें पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ने ले लिया है,

और केंद्रीय सरकार की, महाराष्ट्र राज्य सरकार की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह राय है कि उक्त चीनी उपक्रम महाराष्ट्र सरकार के प्रबन्ध के अधीन है,

और उक्त अधिनियम की धारा 18 के आधार पर, उक्त अधिनियम, उक्त चीनी उपक्रम को, जिसका प्रबन्ध महाराष्ट्र सरकार में निहित है, लागू नहीं होता है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आवृत्ति सं. का. आ. 706 (अ), तारीख 8 दिसम्बर, 1978 को, 13 दिसम्बर, 1978 से, भूतलक्षी रूप में, विखीणित करती है।

[सं. चीनी/258/78-79]

सी. एन. राघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 4th April, 1979

S.O. 196(E).—Whereas by its Order No. S.O. 706(E), dated the 8th December, 1978, published at page No. 1511 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 8th December, 1978, issued under clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978) (hereinafter referred to as the said Ordinance), the Central Government in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), vested the management of Shree Satpuda Tapi Parlsar Sahakari Sakhar Karkhana Limited Purushottam Nagar, District Dhulia, in

the State of Maharashtra (hereinafter referred to as the said Sugar undertaking) in the Central Government with effect from the 13th December, 1978;

And whereas the said Ordinance has now been replaced by the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government, after considering the report of the State Government of Maharashtra, is of the opinion that the said Sugar Undertaking is under the management of the Government of Maharashtra;

And whereas by virtue of section 18 of the said Act, the said Act is not applicable to the said Sugar Undertaking the

management of which is vested in the Government of Maharashtra;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), the Central Government hereby rescinds the said Order No. S.O. 706(E), dated the 8th December, 1978 retrospectively with effect from the 13th December, 1978.

[No. SUG/258/78-79]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.